

1


Revenue
राजस्व

Receipts
प्राप्ति


धन आता है।

सेवार्थ ← धन जाता है।

Income का Source
कहाँ है ?



Source



Target

Tax $\overline{\text{dāṛ}}$ Direct
Indirect

Non Tax $\overline{\text{ḡāṛ}}$ $\overline{\text{ḡāṛ}}$

→ Fees

→ Fine

→ Interest

→ Dividends & profits

→ $\overline{\text{ḡāṛ}}$ $\overline{\text{ḡāṛ}}$ $\overline{\text{ḡāṛ}}$

लाभान्तर

Direct

↳ Tax burden

कर भार



Can not be transferred



Personal Income
Tax

Corporation Tax
निगम कर



C I T

Capital Gains Tax
पूंजीगत लाभ कर

↓
सम्पत्तियों के विक्रय से

Shares Houses
/ etc

flat amount

Lump-sum

ਭਰ ਮੁਦਰਾ

Indirect Taxes




कर भार transfer
हो सकता है।

↓
वस्तु और सेवा के उत्पादन
या वितरण पर लगाये जाते हैं।

progressive
are inherently regressive.

प्रच्छेद करो - मे प्रगतिशील बनाया
जा सकता है जबकि अप्रच्छेद कर
संभाव से ही प्रतिगामी होते हैं।

Diagram -




(ii) The changes in direct taxes do not impact the prices of goods & services but the changes in indirect taxes impact the prices of goods & services leading changes in choices of the people which may negatively impact the level of welfare.

ਪ੍ਰਸੰਦੀ

आयात कर को बढ़ाकर
करना। $\rightarrow$ संरक्षण (Protection)


To protect domestic industry
from imports.

$\downarrow$
 $\uparrow$ Customs Duty
सीमा शुल्क



Shows relationship between
tax rates & tax revenue.
कर की दरों और कर राजस्व के
मध्य सम्बन्ध दिखाता है।

Diagram -



Supply-side

economics


or

Reagnomics

राजस्व प्राप्तियाँ

//

Rev. Receipts



ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਪਾਤਰ

✓ Capital Receipts

Goods

↓
utility

आराम

Leisure

↓

utility

↓

goods

Parle-G biscuit

